



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 33]
No. 33]नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 1978/माघ 17, 1899
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 1978/MAGHA 17, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राष्ट्रिय मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 13--आईटीई (पीएन)/78

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1978

विषय : अप्रैल 1977--मार्च 1978 के दौरान पुस्तकों, जर्नेल, पत्रिकाओं और शिक्षा-संबंधी साधनों का आयात

मिसिल सं० आई पी सी/37/16/77 :--पुस्तकों, जर्नेल, पत्रिकाओं और शिक्षण सहायक साधनों के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (ब्रा० 1) में निहित नीति को और ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन अप्रैल 1977--मार्च 1978 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक में उल्लेख स्थानों पर किए जाएं :--

आयात व्यापार

नियंत्रण नीति

पुस्तक (ब्रा० 1)

की पृष्ठ सं०

संदर्भ

संशोधनों के द्वारा

1

2

3

41. खण्ड II, क्रम सं० 49.01/06, वर्तमान दिव्यियों को निम्नलिखित कालम 3, दिव्यणी (1), (2) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :--
एवं (3) “(1) शिक्षा, विज्ञान संबंधी और तकनीकी पुस्तकों; समाचार पत्रिकाओं; और समाचार पत्रों के आयात

1

2

3

की स्वीकृति खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत दी जाएगी। कृपया इस पुस्तक का परिशिष्ट-1 देखें।

(2) पुस्तकों (खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत आने वाली से भिन्न) के आयात के लिए पुस्तकालयों, तकनीकी एवं शिक्षा संस्थाओं आदि के लिए वास्तविक उपयोगिता।

(3) पुस्तकों (खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत आने वाली से भिन्न) के आयात के लिए व्यक्तियों को भी लाइसेंस प्रदान किए जायेंगे”

41. खण्ड II, क्रम सं० 49.01/06

वर्तमान दिव्यणी (4) के बाद निम्नलिखित को दिव्यणी (5) के रूप में जोड़ा जाए :--

“(5) (क) माइक्रोफिल्म और शैक्षिक प्रकृति के माइक्रोफिल्म; (ख) भाषाओं को सीखने के लिए रिकार्ड; और (ग) शैक्षिक प्रकृति के रिकार्ड से पूर्व कास्टेड्स

1	2	3	1	2	3
		जिनके साथ फिल्म स्ट्रिप्स हों या न हों के आयात की स्वीकृति खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत स्वीकृत शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी और अनुसंधान संबंधी संस्थाओं : ऐसी संस्थाओं के पुस्तकालयों, केन्द्रीय राज्य सरकार के विभागों, अनुसंधानों और विकास कार्यों में लगे हुए एककों, चिकित्सा संस्थाओं, अस्पताल, परामर्शदाताओं, स्वीकृत वाणिज्य मण्डलों, उत्पादन परिषदों, प्रबंध संस्थाओं और व्यावसायिक बाडोज द्वारा दी जाएगी।”			एककों, चिकित्सा संस्थाओं, अस्पताल, परामर्शदाताओं, स्वीकृत वाणिज्य मण्डलों, उत्पादन परिषदों, प्रबंध संस्थाओं और व्यावसायिक बाडोज द्वारा दी जाएगी।”
112. खण्ड 5, परिशिष्ट 1, भाग-8		इस भाग में वर्तमान प्रविष्टियों को इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध में निहित व्यवस्थाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।	217. खण्ड 5, परिशिष्ट 21		वर्तमान कंडिका 7 के बाद एक नई कंडिका 7क को इस प्रकार जोड़ा जाए :— “7क. सुस्थापित आयातकों द्वारा शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी और अनुसंधान संबंधी संस्थाओं, ऐसी संस्थाओं के पुस्तकालयों और केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभागों के विशेष आदेशों की पूर्ति के लिए और ऐसे आदेशों के संतोषजनक साक्ष्य और इन मदों के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य को प्रदर्शित करते हुए संबद्ध प्रपत्र बीजक को प्रस्तुत करने पर माइक्रोफिल्म और शैक्षिक प्रकृति के माइक्रोफिल्म, भाषाओं को सीखने के लिए रिकार्ड और फिल्म स्ट्रिप्स सहित या इसके बिना शैक्षिक प्रकृति के रिकार्ड से पूर्व कास्केट के आयात के लिए अतिरिक्त लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में भी आवेदनपत्रों पर विचार किया जाएगा। आवेदनपत्र 31-3-1978 तक शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, शास्त्री भवन के पुस्तक संवर्धन परिषद के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।”
217. खण्ड 5, परिशिष्ट 21, कंडिका 1		वर्तमान कंडिका के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाए :— “(2) किसी भी एक आयातक (उसकी शाखाओं सहित) द्वारा एक लाइसेंस अवधि के दौरान एक ही टाइमल की 2000 प्रतियों से अधिक प्रतियों के आयात की स्वीकृति भी शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व लिखित निकासी के बिना नहीं दी जाएगी।”			
217. खण्ड 5, परिशिष्ट 21		शीर्षक ‘शिक्षा साधनों’ के अंतर्गत एक नई कंडिका 6क को इस प्रकार जोड़ा जाए :— “6क. माइक्रोफिल्म और शैक्षिक प्रकृति के माइक्रोफिल्म, (ख) भाषाओं को सीखने के लिए रिकार्ड, और (ग) शैक्षिक प्रकृति के रिकार्ड से पूर्व कास्केट जिनके साथ फिल्म स्ट्रिप्स हों या न हों के आयात की स्वीकृति खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत स्वीकृत शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी और अनुसंधान संबंधी संस्थाओं, ऐसी संस्थाओं के पुस्तकालयों, केन्द्रीय, राज्य सरकार के विभागों, अनुसंधान और विकास कार्यों में लगे हुए	218. खंड 5, परिशिष्ट 21, पैरा 12		विद्यमान पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाए :— “12. नए आगन्तुकों को प्रदान किए गए लाइसेंस उसी तरीके से उपयोग में लाए जा सकते हैं जिस प्रकार कोटाधारियों को जारी किए गए लाइसेंस। माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिल्म आदि के आयात के लिए सुविधा भी नए आगन्तुकों को उसी तरीके से उपलब्ध होगी जिस तरीके से कोटाधारियों को, देखिए उपर्युक्त पैरा 7.

1	2	3	1	2	3
220 खंड 5, परिशिष्ट 21 सूची 1	(i) "सूची 1" के स्थान पर "अनुबन्ध" पढ़िए				संस्थान, ऐसे संस्थानों के पुस्तकालय, केन्द्रीय राज्य सरकार के विभाग, अनुसंधान और विकास कार्य में लगे हुए एकक, चिकित्सा संस्थान, अस्पताल, चिकित्सक, अभिज्ञात वाणिज्य सदन, उत्पादक परिषदें, प्रबंध संस्थाएँ और व्यवसायिक निकाय
	(ii) विद्यमान सूची-1 के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाए:— "शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की सूची।"				(क) शैक्षिक प्रकृति की माइक्रो-फिल्म और माइक्रोफिचिज; (ख) भाषाओं को सीखने के लिए रिकार्ड; और (ग) फिल्म पट्टियों सहित या रहित शैक्षिक प्रकृति के प्री-रिकार्डिड कस्सेट्स का आयात कर सकते हैं।
221 खंड 5, परिशिष्ट 21, सूची 1, क्रम सं० 11-संदर्भ पुस्तकें	निम्नलिखित अतिरिक्त प्रविष्टि मद सं० (ट) के रूप में जोड़ी जाए:— “(ट) व्यापार और वाणिज्य पर पुस्तकें जिनमें विनि-मताओं और व्यापारियों की निर्देशिका शामिल हैं।”				
240 खंड 5, परिशिष्ट 25, पैरा 1 (i) (च)	विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित उपबन्ध प्रतिस्थापित किया जाए:— “(च) इस पुस्तक के परिशिष्ट 21 की सूची 1 में शामिल विषयों पर शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकों; शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं; समाचार पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का अपने निजी उपयोग के लिए कोई भी व्यक्ति आयात कर सकता है।”				अनुबन्ध भाग-8
241 खंड 5, परिशिष्ट 25, पैरा 1 (ii) (1) (ट)	विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित उपबन्ध प्रतिस्थापित किया जाए:— “(i) शैक्षिक, तकनीकी और अनु-संधान संस्थान विषयविद्यालय, कालिज आदि (क) इस पुस्तक के परिशिष्ट 21 की सूची 1 में शामिल विषयों पर शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकों (ख) शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं, (ग) समाचार पत्रिकाओं और (घ) समाचार पत्रों का आयात कर सकते हैं।”				निम्नलिखित श्रेणियों की पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के आयात की अनुमति व्यापारियों, व्यक्तियों, संस्थानों और अन्यो को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत दी जाएगी:— (क) इस परिशिष्ट की सूची 1 में दिए गए विषयों पर शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकें; (ख) शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाएं; (ग) समाचार पत्रिकाएं; और (घ) समाचार पत्र खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा:— (1) किसी भी आयातक (उसकी शाखाओं सहित) को एक लाइ-सेंस अवधि के दौरान एक ही शीर्षक की 2000 प्रतियों से अधिक के आयात की अनुमति शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दी गई पूर्व लिखित निकासी के बिना नहीं दी जाएगी; (2) जिन पुस्तकों के भारतीय पुनः मुद्रणों के अधुनासन संस्करण उपलब्ध हैं उनके विदेशी संस्करणों के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी। 2. (क) शैक्षिक प्रकृति की माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिचिज; (ख) भाषाओं को सीखने के लिए रिकार्ड; और (ग) फिल्म पट्टियों सहित या उनके बिना शैक्षिक के प्री-रिकार्डिड कस्सेट्स के आयात की अनुमति अभिज्ञात शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अनुसंधान, संस्थानों और ऐसे संस्थानों के पुस्तकालयों, केन्द्रीय, राज्य सरकार के विभागों, अनुसंधान और विकास कार्य में लगे हुए औद्योगिक एककों, चिकित्सा संस्थानों अस्पतालों, चिकित्सकों, अभिज्ञात वाणिज्य सदन, उत्पादक परिषदों, प्रबन्ध संस्थाओं और व्यवसायिक निकायों को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत दी जाएगी।
241 खंड 5, परिशिष्ट 25, पैरा 1 (ii) (ठ)	विद्यमान अनुबन्ध 1 (ii) (ट) के बाद निम्नलिखित नए उपबन्ध उप-पैरा 1(ii)(i) में समाविष्ट किए जाए:— (1) अभिज्ञात शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी और अनुसंधान				का० बें० शेषादि, मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रित

MINISTRY OF COMMERCE

Import Trade Control

PUBLIC NOTICE NO. 13—ITC(PN)/78

New Delhi, the 6th February, 1978

Subject : Import of books, journals, magazines and teaching aids during April, 1977—March, 1978

F. No. IPC/37/16/77.—Attention is invited to the policy contained in the ITC Policy (Volume I), 1977-78 for import of books, journals, magazines and teaching aids.

2. The following amendments may be made at the appropriate places in the Import Trade Control Policy Book (Volume I) for April, 1977—March, 1978 :—

Page No. of ITC Policy Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
1	2	3
41. Section II, S. No. 49.01/06, Col. 3, remarks (1), (2) and (3).		The existing remarks may be substituted by the following:— “(1) Import of educational, scientific and technical books; news magazines; and newspapers will be allowed under the Open General Licence. Please see Appendix 1 to this Book. (2) A.U. for libraries, technical and educational institutions, etc., for import of books (other than those covered by O.G.L.). (3) Licences will also be granted to individuals for import of books (other than those covered by O.G.L.).”
41. Section II, S. No. 49.01/06.		The following may be added as remark (5), after the existing remark (4) :— “(5) Import of (a) microfilms and microfiches of educational nature, (b) records for learning of languages, and (c) pre-recorded cassettes of educational nature, with or without film strips, will be allowed under O.G.L. by the recognised educational, scientific, technical and research institutions, libraries of such institutions, Central, State Government departments, industrial units engaged in research and development work, medical institutions, hospitals, consultants, recognised chambers of commerce, productivity councils, management

1

2

3

associations and professional bodies. Please see Appendices 1 and 21 of this Book.”

112. Section V, Appendix 1, Part VIII. The existing entries in this part may be substituted by the provisions contained in Annexure to this Public Notice.

217. Section V, Appendix 21, para 1. The following may be added at the end of the existing para 1:

“Also, import by any one importer (including his branches) of more than 2,000 copies of a single title during one licensing period will not be permitted without prior written clearance of the Ministry of Education and Social Welfare, New Delhi.”

217. Section V, Appendix 21. Under the heading “Teaching Aids”, a new para 6-A may be inserted as follows :—

“6-A. Import of microfilms and microfiches of an educational nature, (b) records for learning of languages and (c) pre-recorded cassettes of an educational nature with or without film strips, will be allowed under the Open General Licence by recognised educational, scientific, technical and research institutions, libraries of such institutions, Central and State Government departments, industrial units engaged in research and development work, medical institutions, hospitals, consultants, recognised chambers of commerce, productivity councils, management associations and professional bodies.

217. Section V, Appendix 21. After the existing para 7, a new para 7-A may be inserted as follows :—

“7-A. Applications from Established Importers will also be considered for grant of additional licences for import of microfilms and microfiches of an educational nature, records for learning languages and pre-recorded cassettes of an educational nature with or without film strips, to cover specific orders from educational, scientific,

1	2	3	1	2	3
		technical and research institutions, libraries of such institutions and Central or State Government departments and on production of satisfactory evidence of such orders and related proforma invoices showing the c.i.f. value of these items. The applications should be made through the Book Promotion Division of the Ministry of Education and Social Welfare, Shastri Bhavan, New Delhi by 31-3-1978".			scientific and technical books on subjects covered by List I of Appendix 21 of this Book; (b) educational, scientific and technical journals; (c) news magazines; and (d) newspapers."
218 Section V, Appendix 21, Para 12.	The existing para may be substituted by the following :—	"12. Licences granted to new comers can be utilised in the same manner as the licences issued to quota holders. Facility for import of microfilms and microfiches etc., will also be available to new comers in the same manner as quota holders vide para 7 above."	241 Section V, Appendix 25, Para 1(ii)(k)	After the existing remarks 1(ii)(k), the following new provisions may be incorporated at sub-para 1(ii)(1) :—	"(1) Recognised educational, scientific, technical and research institutions, libraries of such institutions, Central, State Government departments, industrial units engaged in research and development work, medical institutions, hospitals, consultants, recognised chambers of commerce, productivity councils, management associations and professional bodies can import (a) microfilms and microfiches of educational nature (b) records for learning of languages and (c) pre-recorded cassettes of educational nature, with or without film strips."
220 Section V, Appendix 21, List I.	(i) In place of 'List I', read 'Annexure'. (ii) The heading of the existing List-I may be substituted by the following :— "List of educational scientific and technical subjects."				
221 Section V, Appendix 21, List I, S. No. 11 Reference Books.	The following additional entry may be added as item No. (k) : "(k) Books on trade and commerce, including Directory of manufacturers and merchants."				
240 Section V, 25, Appendix 25, Para I(i) (f)	The existing provision may be substituted by the following :— "(f) Any person can import educational, scientific and technical books on subjects covered by List I of Appendix 21 of this Book: educational, scientific and technical journals; news magazines; and newspapers for his own use."				
241 Section V, Appendix 25, Para I(ii)(l)	The existing provision may be substituted by the following :— "(i) Educational, technical and research institutions, universities, colleges etc., can import (a) educational,				
ANNEXURE (PART VIII)					
Import of the following categories of books, journals, etc. will be allowed under Open General licence by dealers, individuals, institutions and others :—					
— (a) educational, scientific and technical books on subjects given in List I of this Appendix;					
(b) educational, scientific and technical journals;					
(c) news magazines; and					
(d) newspapers.					
import under Open General Licence will be subject to the following conditions :—					
(i) Import of more than 2,000 copies of a single title during one licensing period by any importer, will not be permitted without specific clearance of the Ministry of Education and Social Welfare, New Delhi;					
(ii) Import of foreign editions of books of which latest editions of Indian reprints are available will not be allowed.					
2. Import of (a) microfilms and microfiches of an educational nature, (b) records for learning of languages and (c) pre-recorded cassettes of educational nature with or without film strips, will be allowed under the Open General Licence by recognized educational, scientific, technical and research institutions, libraries of such institutions, and Central, State Government departments industrial units engaged in research and development work, medical institutions, hospitals, consultants, recognised chambers of commerce, productivity councils, Management associations and professional bodies.					
K.V. SESHADRI, Chief Controller (I&E)					

